



## प्रेसनोट / सराहनीय कार्य (पत्रांक-329/20 दिनांक 24.11.2020)

### दिनांक- 24.11.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य चोरी के रुपये व अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.11.2020 को थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन / संदिग्ध व्यक्ति के चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सिसवा रोड सरस्वती महाविद्यालय मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1. महेश कुमार बरवार पुत्र जुगुलदत्त सा0 मूराडीहा पपोस्ट बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अदद अवैध शस्त्र 315 बोर तमन्चा व चोरी के 5050 रुपये व डिग्गी खोलने 16 अलग-2 तरीके की चाबी व 2. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामदेव सिंह सा0 पनईपुरवा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अदद अवैध चाकू, 2 बैंक पासबुक व चोरी के 3160 रुपये बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 248/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम महेश कुमार बरवार व मु0अ0सं0 249/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम प्रमोद कुमार सिंह पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है अभियुक्तगण उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/20 धारा 379 ipc में वांछित हैं तथा उक्त मुकदमें से सम्बन्धित चोरी का पैसा अभियुक्तगण से कुल 8210 रुपया बरामद हुआ है। जिसमें 411 ipc की बढ़ोतरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पुछताछ में बताया कि दिनांक 19/08/2020 को जनपद महाराजगंज में SBI कृषि विकास शाखा से निकालकर ले जाते समय स्थान मजिदिया ढाला मे डिग्गी से 1 लाख 10000 रुपया चोरी करने की बात भी स्वीकार किये है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. महेश कुमार बरवार पुत्र जुगुलदत्त सा0 मूराडीहा पपोस्ट बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोंडा
2. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामदेव सिंह सा0 पनईपुरवा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोंडा

#### बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद नाजायज 315 बोर तमन्चा
2. चोरी के 5050 रुपये व डिग्गी खोलने 16 अलग-2 तरीके की चाबी
3. एक अदद अवैध चाकू 2 बैंक पासबुक व चोरी के 3160 रुपये ।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।
2. व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।
3. उ0नि0 श्री रमाशंकर सिंह यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।
4. का0 अनीष यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।
5. का0 उमाशंकर यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

#### हिस्ट्रीशीटर टॉपटेन अभियुक्त गिरफ्तार -

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.11.2020 को थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा स्थान बहद ग्राम सोरहवा झरही नदी के किनारे से हिस्ट्रीशीटर टॉपटेन अभियुक्त नेऊर मुसहर पुत्र हरि मुसहर साकिन सोरहवा बैरा टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब ,नौसादर, यूरिया, व एक मोटरसाईकिल बरामद किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 265/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### अवैध शराब बिक्री,परिवहन,निष्कर्षण में की गयी कार्यवाही-(कुल-05) थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1. सुनील कुमार S/O केदार सिंह R/O अमवा चौधरी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 2. धर्मेन्द्र कुमार S/O विरंजी प्रसाद R/O सठियाव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः अन्तर्गत मु0अ0सं0- 427/2020,428/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना अहिरौली बाजार-**

थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बलराम पुत्र महाराज साकिन सुबोधिया खुर्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-196/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**थाना पटहेरवा-**

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. कदम अली पुत्र हफीज मियां साकिन सरौटी थाना कटेया जनपद गोपालगंज ( बिहार) व 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-447/2020,448/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-कुल( 01)**

**थाना को0 हाटा-**

थाना को0 हाटा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त संगम चौहान पुत्र भजुराम साकिन घोरटप भिस्वा थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-462/2020 धारा 401 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 14 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**कार्यवाही एक नजर में =**

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-252 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-12, व्यक्ति-51
- 3.आबकारी अधि0में की गयी कार्यवाही-मु0-04,अभि0- 06, बरामदगी-60 ली0 कच्ची शराब व 20 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब व एक मोटरसाईकिल
4. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
5. **जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-23)।**

मीडिया सेल  
जनपद कुशीनगर